

“भोजन ही औषधि है। औषधि ही भोजन है।”

ऑक्सिमिराई प्लस नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक



अच्छा पोषण ही स्वस्थ जीवन की असली दवा है। लेकिन आज हमारी जीवनशैली, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और तनावपूर्ण जीवन के कारण शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं है।

WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार फ्री रेडिकल्स ही आज की अधिकतर जीवनशैली रोगों का मुख्य कारण हैं। ये हानिकारक तत्व हमारे शरीर में प्रदूषण, किरणों, गलत खान-पान और तनाव से बनते हैं और धीरे-धीरे हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है – एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं।

क्यों खास है Oximerai Plus?

क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे पौष्टिक फलों और जड़ी-बूटियों से बने विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हैं।

रोजाना Oximerai Plus पीने के फायदे

डायबिटीज (मधुमेह) – जोड़ों का दर्द, गठिया – मोटापा – हाई ब्लड प्रेशर – सिर दर्द, माइग्रेन – बाल झड़ना – पाचन की समस्या, कब्ज – हृदय रोग – अल्सर और पेट दर्द – त्वचा संबंधी समस्याएँ – तनाव और चिंता – थायरॉइड – किडनी की समस्या – वैरिकोज़ वेन्स – महिलाओं की माहवारी संबंधी समस्याएँ – कैंसर, टी.बी. और अन्य जीवनशैली रोग

नियमित सेवन से Oximerai Plus शरीर को नई ऊर्जा देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और गंभीर बीमारियों से बचाकर लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है।

कैसे सेवन करें 15 ml :

Oximerai Plus को साफ पानी में मिलाकर दिन में दो बार पिएं। खाना खाने से 30 मिनट पहले लें। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं।

शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व

आंवला, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, कीवी, रामबूटन, नोनी, आम, अंजीर, मौसंबी, संतरा, अमरूद, अंगूर, अनार, पपीता, आलूबुखारा, टमाटर, गाजर, खीरा, सहजन, एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, हल्दी, काला जीरा, सहजन के बीज।

